

बाल विवाह को समाप्त करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के दशिया-नरिदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **बाल विवाह** के पूर्ण उन्मूलन के लिये जारी किये गए **सर्वोच्च न्यायालय** के दशिया-नरिदेशों से राजस्थान में **नागरिक समाज समूहों** को महत्त्वपूर्ण बढ़ावा मिला है।

मुख्य बदि

- राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन:
 - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** के अनुसार, राजस्थान में 20-24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु तक पहुँचने से पहले हो गई थी।
- 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन के लिये सामूहिक प्रयास:
 - सर्वोच्च न्यायालय के नए दशिया-नरिदेशों से उत्साहित होकर, एक **गैर-सरकारी संगठन**, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) ने ज़मीनी स्तर पर प्रयास तीव्र करने का संकल्प लिया है।
 - उनका लक्ष्य गाँवों में जागरूकता बढ़ाने सहित सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से वर्ष 2030 तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करना है।
- सर्वोच्च न्यायालय के दशिया-नरिदेश:
 - न्यायालय ने **राज्य सरकार को नरिदेश दिया कि वह गाँव के नेताओं को सूचित और संवेदनशील बनाए तथा इस बात पर ज़ोर दे कि यदि वे अपने समुदायों में बाल विवाह रोकने में विफल रहते हैं तो उनकी जवाबदेही होगी।**
 - सर्वोच्च न्यायालय के दशियानरिदेश बाल विवाह रोकने के लिये **ग्राम पंचायतों, स्कूल प्राधकारियों और बाल संरक्षण अधिकारियों पर जवाबदेही डालते हैं।**
 - न्यायालय ने **बाल विवाह प्रतिषिध अधिनियम, 2006** को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये “रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन” मॉडल अपनाने की सलाह दी।
 - वर्ष 2024 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि **राजस्थान पंचायती राज नयिम, 1996 के तहत ग्राम सरपंच बाल विवाह रोकने के लिये ज़िम्मेदार होंगे।**

बाल विवाह प्रतिषिध अधिनियम 2006

- यह कानून कुछ कार्यों को दंडनीय बनाकर तथा बाल विवाह की रोकथाम और नषिध के लिये ज़िम्मेदार कुछ प्राधकारियों की नयिकृत्करके बाल विवाह को रोकने का प्रयास करता है।
- अधिनियम के अंतर्गत परभाषाएँ:
 - "बालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो, यदि **पुरुष है, तो इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला है, तो अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।**
 - "बाल विवाह" से तात्पर्य ऐसे विवाह से है जिसमें अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बच्चा हो।
 - "नाबालगि" का अर्थ है वह व्यक्ति जो वयस्कता अधिनियम, 1875 के प्रावधानों के तहत **वयस्कता प्राप्त नहीं किया है। वयस्कता अधिनियम, 1875 के अनुसार, भारत में नविस करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्कता प्राप्त करता है।**
 - बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसके लिये **कठोर कारावास की सज़ा दी जा सकती है, जो 2 वर्ष तक हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती हैं।**
- इस कानून के तहत **जनि व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है उनमें शामिल हैं:**
 - जो कोई भी बाल विवाह संपन्न कराता है, उसका संचालन करता है, नरिदेश देता है या उसे बढ़ावा देता है।
 - 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क पुरुष किसी बालिका से विवाह करता है (धारा 9)।
 - बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें माता-पति या अभिभावक, किसी संगठन या एसोसिएशन का सदस्य शामिल है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है, अनुमति देता है या उसमें भाग लेता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-guidelines-to-eliminate-child-marriages>

